

# Popular Front of India

G-78, 2<sup>nd</sup> Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025

fb: <https://www.facebook.com/PopularFrontofIndiaOfficial/> website: [www.popularfrontindia.org](http://www.popularfrontindia.org)

email: [popularfrontmail@gmail.com](mailto:popularfrontmail@gmail.com) Tel: 011- 29949902

---

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली

9 दिसंबर, 2017

**अमेरिका ने एक बार फिर साबित किया है कि वह एक दुष्ट राष्ट्र है: ई-अबू बकर**

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ई. अबू बकर ने अमेरिका द्वारा इसराइल की राजधानी के रूप में यरूशलेम की घोषणा की निंदा करते हुए कहा है कि, इस आतंकवादी राजनीति ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अमेरिका एक बहुत ही बुरा राष्ट्र है। वास्तव में, खाड़ी देशों को अस्थिर करने और अन्तर्राष्ट्रीय अमन व शांति को खतरे में डालने के लिये ये एक दुष्ट देश की दूसरे दुष्ट देश के साथ आपसी साजिश है। उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ और यहां तक कि अमेरिका के सहयोगी देशों ने भी अरब मुस्लिम देशों के साथ एक आवाज़ बन कर इस की निंदा की है, जो डोनाल्ड ट्रम्प के पागलपन के लिए एक चुनौती है।

ऐतिहासिक तथ्य यह है कि येरुशलम मुसलमानों का पवित्र स्थान है। यह इजरायल या अमेरिका द्वारा यहूदी और ईसाई विश्वासों में कभी भी बदला नहीं जा सकता है। १९६७ के युद्ध में येरुशलम के पूर्व क्षेत्र पर इजरायल ने कब्ज़ा कर लिया था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली थी। फिलिस्तीन अपने शहर में स्वतंत्र राज्य की राजधानी चाहता है, जिस पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है। फिलिस्तीन की स्थिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा फ्रेमवर्क के तहत फिलिस्तीनियों के हस्तक्षेप की बुनियाद पर होनी चाहिए। यह सच है कि किसी भी देश का येरुशलम में कोई दूतावास नहीं है जो इजराइल की यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने के दावों के खोखलेपन को दर्शाता है।

ई. अबू बकर ने उम्मीद जताई है कि उभरती स्थिति अरब देशों में एकता का आधार होगी, जो अमेरिका और इजराइल की तोड़ने की रणनीतिक योजना के शिकार हैं।

भवदीय

पब्लिक रिलेशन सेक्रेट्री

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

मुख्यालय नई दिल्ली